

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2023— आश्विन 28, शक 1945

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं.